

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 10] दिल्ली, मई 31—जून 6, 2019, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 10— ज्येष्ठ 16, 1941 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 59  
No. 10] DELHI, MAY 31—JUNE 6, 2019, THURSDAY/JYAISTHA 10 — JYAISTHA 16, 1941 [N.C.T.D. No. 59]

भाग II—खण्ड I

PART II—Sec. I

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन  
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications.

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मई, 2019

विषय: ग्रीष्मकालीन अवकाश 2019 - प्रबंध - अधिसूचित

सं. 428/स्था./ई-1/डी.एच.सी.—एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित माननीय न्यायाधीशगण को उनके नामों के समक्ष क्रमशः दर्शायी गई अवधि हेतु आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश 2019 के दौरान अवकाशकालीन न्यायाधीशगण के रूप में सहर्ष नामनिर्दिष्ट करते हैं जो उन मामलों की, जिनका तत्काल या शीघ्रता से संव्यवहार किया जाना अपेक्षित है, सुनवाई करेंगे:

क्रम सं.	माननीय न्यायाधीशगण के नाम	अवधि	
		से	तक
1.	माननीय न्यायाधीश श्री जे.आर.मिड्डा माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्र शेखर	01.06.2019	07.06.2019
2.	माननीय न्यायाधीश सुश्री अनु मल्होत्रा माननीय न्यायाधीश श्री तलवंत सिंह	08.06.2019	14.06.2019
3.	माननीय न्यायाधीश श्री जयंत नाथ माननीय न्यायाधीश श्री नजमी वज़ीरी	15.06.2019	21.06.2019
4.	माननीय न्यायाधीश सुश्री ज्योति सिंह माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी	22.06.2019	29.06.2019

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पालन करने हेतु निम्न आदेश भी सहर्ष पारित करते हैं:-
  - (i) माननीय न्यायाधीश खंडपीठ में एवं अकेले भी अति-आवश्यक दीवानी एवं दांडिक मामलों तथा ऐसे अन्य मामलों की सुनवाई हेतु, जो कि उपरोक्त तिथियों की तालिका के अनुसार उनके सम्मुख रखे जायेंगे, बैठेंगे।
  - (ii) सामान्यतः न्यायाधीश सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा ऐसे अन्य दिवसों को, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, प्रातः 10.30 बजे से न्यायालय में बैठेंगे। किन्हीं मामलों की सुनवाई अमुक दिवस में समाप्त न होने पर अगले दिन भी न्यायालय में उन मामलों की सुनवाई जारी रखी जायेगी।
  - (iii) यदि कोई एक न्यायाधीश किन्हीं अनापेक्षित कारणों से किसी दिन उपलब्ध नहीं हैं, तो दूसरे न्यायाधीश इस शर्त के अधीन अकेले ही बैठेंगे कि वह खंडपीठ के मामलों को खारिज नहीं करेंगे।
3. न्यायालय का कार्यालय द्वितीय शनिवार, रविवार तथा दूसरे अवकाश, यदि कोई हों, को छोड़कर प्रतिदिन 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक खुला रहेगा।
4. कोई समावेदन मामला, जो सामान्यतः दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुने जाने योग्य है, एकलतया बैठे न्यायाधीश के विवेक से केवल स्वीकार किया जा सकेगा परन्तु खारिज नहीं किया जाएगा (उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश जिल्द V, अध्याय 3-बी नियम 3 का परन्तुक देखें)।
5. दीवानी एवं दांडिक मामलों को संस्थापित करने के लिए अवकाश के दौरान परिसीमा का समय लागू नहीं होगा।
6. सभी वाद पत्र, अपीलें, याचिकाएँ अथवा अन्य मामले, जिनका तत्काल एवं तुरंत संव्यवहार किया जाना आवश्यक है, द्वितीय शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश, यदि कोई हों, को छोड़कर समस्त दिवसों पर 10.00 बजे पूर्वाह्न से दोपहर 12.00 बजे के मध्य कार्यरत संयुक्त निबंधक/उप निबंधक के पास दाखिल किए जा सकते हैं।
7. वाद, अपीलें, प्रार्थना-पत्र अथवा अन्य कार्यवाहियाँ, जो न्यायालय पुनः खुलने के दिन दाखिल की जानी हैं, वे भी सोमवार, दिनांक 24 जून, 2019 से शनिवार 29 जून, 2019 तक 10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक पक्षकारों की सुविधानुसार संस्थित/प्रस्तुत अथवा नियमित अनुक्रम से दाखिल की जा सकती हैं यद्यपि परिसीमा के प्रयोजनों के लिए न्यायालय केवल 01.07.2019 को पुनः खुलेगा।

आदेशानुसार,

दिनेश कुमार शर्मा, महानिबन्धक

## HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

### NOTIFICATION

Delhi, the 28th May, 2019

### SUBJECT: SUMMER VACATION 2019 – ARRANGEMENT – NOTIFIED

**No. 428/Estt/EI/DHC.**—It is hereby notified afresh that Hon'ble the Chief Justice is pleased to nominate the Hon'ble Judges named below to be Vacation Judges during the ensuing Summer Vacation 2019, to hear matters which may require to be immediately or promptly dealt with, for the respective periods as shown against their names:-

Sl. No.	NAME OF THE HON'BLE JUDGES	PERIOD	
		FROM	TO
1.	Hon'ble Mr. Justice J.R.Midha Hon'ble Mr. Justice Chander Shekhar	01.06.2019	07.06.2019
2.	Hon'ble Ms. Justice Anu Malhotra Hon'ble Mr. Justice Talwant Singh	08.06.2019	14.06.2019
3.	Hon'ble Mr. Justice Jayant Nath Hon'ble Mr. Justice Najmi Waziri	15.06.2019	21.06.2019
4.	Hon'ble Ms. Justice Jyoti Singh Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Ohri	22.06.2019	29.06.2019

2. Hon'ble the Chief Justice is further pleased to pass the following orders for being followed during the course of summer vacation:-
  - i. The Judges will sit in Division Benches and also singly to hear urgent Civil and Criminal matters and such other matters as may be placed before them as per the schedule of dates given above.
  - ii. Ordinarily the Judges will sit in Court on Mondays, Wednesdays and Fridays and such other days as they may think fit at 10.30 A.M. The sitting may continue for the next succeeding day if matters fixed for any day are not finished on that day.
  - iii. If one of the Judges is not available on any day for any unforeseen reason, the other Judge may sit alone subject to the condition that the Hon'ble Judge shall not dismiss the Division Bench matters.
3. The office of the Court will remain open daily from 10.00 A.M. to 5.00 P.M. except on Second Saturday, Sundays, and other holidays, if any.
4. A motion matter normally entertainable by bench of two Judges may only be admitted in the discretion of the Judge sitting singly but will not be dismissed (vide proviso to Rule 3 Chapter 3-B, High Court Rules and Orders Volume V).
5. Limitation will not run during the vacation period for purposes of institution of Civil and Criminal cases.
6. All complaints, appeals, petitions or other matters as may require to be immediately or promptly dealt with, can be filed with the Joint Registrar/Deputy Registrar on duty between 10.00 A.M. and 12 Noon on all days except Second Saturday, Sundays and other holidays, if any.
7. Suits, Appeals, Applications or other proceedings, which are to be filed on the re-opening day, may also be instituted/preferred or made in regular course between 10.00 A.M. and 4.00 P.M. from Monday, the 24<sup>th</sup> June, 2019 to Saturday, the 29<sup>th</sup> June, 2019 as per convenience of the parties though for the purpose of limitation the Court re-opens only on 01.07.2019.

BY ORDER,

DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General